

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015—माघ 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015

फा. क्र. 17 (ई) 261-2014-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, मंदसौर, हरदा, भिण्ड, एवं विदिशा म. प्र. हेतु त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी (स्थानीय निवाचन) जिला—विदिशा (म. प्र.)
विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारियों हेतु प्रस्ताव का प्रपत्र (परिशास्त—1)**

क्र.	रेक्टर क्रमांक	अधिकारी का नाम	विभाग एवं पदभाग	मोबाइल नम्बर	संघें गये मतदान केन्द्रों का क्रमांक केन्द्र	कुल मतदान (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जनपद पंचायत विदिशा						
1	1. सतपाड़ा	श्री अरुण प्रताप सिंह	उप परि. संचालक आत्मा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विदिशा.	8989576263	1. नथनपुर, 2. रामपुर बंधिया, 3. सहजाखेड़ी, 4. सहजाखेड़ी मजरा, 15. ब्याँची, 18. अहमदनगर, 19. अहमदनगर, 20. अहमदनगर, 5. सतपाड़ा, 6. सतपाड़ा, 7. सतपाड़ा.	11
2	2. सांकलखेडाखुर्द	श्री भूपेन्द्र सिंह	जिला पंजीयक, सहकारी संस्थायें, विदिशा.	9425435820	25. सुलतनिया, 26. सुलतनिया, 74. सांकलखेडा खुर्द, 75. मढ़ियाकलां, 76. बेरखेडी कस्बा, 77. पुरेनिया, 78. पुरेनिया, 79. कोटरा लश्करपुर, 80. कोटरा लश्करपुर, 81. नामाखेड़ी, 16. कोठीचार कलां, 17. कोठीचार कलां.	12
3	3. पीपलखेडा कलां	श्री राजीव जैन	सह. यंत्री सप्तराट अशोक सागर संभाग-2, विदिशा.	9826549148	27. पीपलखेडा कलां, 28. पीपलखेडा कलां, 29. पीपलखेडा कलां, 30. थाने, 31. थाने, 32. सलैंखेड़ी, 33. पौरखेड़ी, 71. गंगराडा, 72. भियाखेड़ी, 73. लोधाखेड़ी.	10
4	4. सलैया	श्री पी. सी. जैन	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यात्रिकीय सेवा उपसंभाग, विदिशा.	9179403551	36. सलैया, 37 सलैया, 34. सनेटी, 35. सनेटी, 38. भटखेड़ी, 42. पिपिया अजीत, 43. पिपिया अजीत, 44. गोरियाखेड़ी.	8
5	5. पौआनाला	श्री जे. सी. रावरा	उप चन्मण्डल अधिकारी, विदिशा	9424700951	45. पौआनाला, 46. पौआनाला, 47. सिलपरी, 48. भूतपरासी, 49. हिनोतिया, 50. कबूला, 51. पारथी, 54. धमनोदा, 55. धमनोदा, 56. धमनोदा मजरापुर.	10
6	6. बालाबरखेडा	डॉ. एम. एल. मेहरा	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें, विदिशा.	9425165829	52. बालाबरखेडा, 53. बालाबरखेडा, 57. सायर, 58. सायर, 59. सायर, घाटखेड़ी भजरा, 60. केला, 61. पथरिया, 62. परासीखुर्द, 63. बामोरा, 64. बागोद करमोदिया.	10
7	7. खामखेडा करबा	श्री आर. एम. खान	प्रोजेक्ट इंजीनियर, पी.आई.यू., विदिशा.	9826441106	39. बर्स, 40. बर्स, 65. खामखेडा, 66. खामखेडा, 67. खामखेडा, 68. खेजडा मुलान, 69. वलताखेडी, 70. दल्लाखेड़ी.	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	8. कैरेयाहाट	श्री पी. के. बहुआ	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, लाशु संचाहा, विदिशा.	9425040885	91. इमलिया परासी, 90. परासी गृज, 92. सुगानखेडी, 10 93. बेरखेडी बुजुर्ग, 94. बौरिया, 95. बौरिया, 96. पिपरिया मोटा, 97. वामनखेडा, 88. कैरेयाहाट, 89. कैरेयाहाट.	10
9	9. बिलोरी	श्री मनोज जैन	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, विदिशा.	9425614880	82. बिलोरी, 83. बिलोरी, 84. बदनपुर, 85. अहमदपुर, 10 86. अरबरिया, 87. खमतला, 115. युशिरिया, लश्क. 116. सेमगा लश्क. 98-99 नीमखेडा.	10
10	10. छोरखेडा	श्री अब्दुल शरीफ कुरेशी	सहायक संचालक पिछड़ा वार्ड तथा अल्प संख्यक कल्याण विदिशा.	9425443106	100. छोरखेडा, 101. छोरखेडा, 102. जम्बार, 103. दोरे, 9 104. निमधिरिया, 105. दोरे टिपा, 106. बारी, 107. बारी, 110. ढोलखेडी.	9
11	11. करारिया लश.	श्री टी. आर. मालवीय	सहायक संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विदिशा.	9926552325	108. इमलिया लश., 109. इलमिया लश., 117. करही, 112. करारिया लश., 113. करारिया लश., 114. करारिया लश., 195-196-सुनपुरा, 197. उदयगिरी.	9
12	12. चितोरिया	श्री रविंद्र मोहन गुप्ता,	उपर्यंत्री लोक निमण विभाग, विदिशा.	9826186062	8. दुपरिया, 9. दुपरिया, 10. दुपरिया, 21. चितोरिया, 11 22. चितोरिया, 23. बमूरिया, 24. सूखा सेमगा, 11. शेषपुर, 12. शेषपुर, 13. रुमल्ली, 14. रुमल्ली.	11
13	13. कागपुर	श्री नरेन्द्र गुप्ता,	प्रबंधक, डी.पी.आई.पी., विदिशा.	9406904201	127. हिनोतिया, 128. हिनोतिया, 129. मूडगा सुरहं, 10 130. अंडियाखुर्द, 131. परस परसेग, 132. कागपुर, 133. कागपुर, 134. कागपुर, 135. गढला, 136. कदरी.	10
14	14. देवखजुरी	श्री विनय प्रकाश सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सह. केन्द्रीय बैंक, विदिशा.	7389928200	121. देवखजुरी, 122. देवखजुरी, 123. देवखजुरी, 124. अमउखेडी, 125. दोताखेडी, 126. कोठिचार खुदं, 137. कोठिचार, 138. छापखेडा, 139. डुलही, 118. सांकलखेडा कलां, 119. सांकलखेडा कलां, 120. पीपलखेडा खुदं.	12
15	15. लश्कपुर	श्री ठी. एन. सूर्यवंशी	श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग, विदिशा.	9425108593	111. बडेयाखेडी मजरा, 148. लश्कपुर, 149. लश्कपुर, 6 142. हरखेडी, 150. फैवरा, 151. घही.	6
16	16. खेलआहाट	श्री एस. के. जैन	जिला योजना अधिकारी, जिला शिक्षा कार्या विदिशा.	9893836406	140. खेलआहाट, 141. खेलआहाट, 143. गजां, 144. खामखेडा लश., 145. इकोटिया, 152. जीवाजीपुर, 153. पलोह, 154. अमाझावर.	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	17. कुंआखेडी	श्री महेस्त्रसिंह चौहान	सहा. परियोजना अधि. जिला पंचायत, विदिशा।	9425642214	155. मूड़रा हरीसिंह, 156. मूड़रा हरीसिंह, 239. सौराई, 10 240. बराखेडा, 159. किम्पची बंधेरा, 160. बंधेरा मजरा, 157. पोङ्झ, 158. धतुरिया, 146. कुंआखेडी, 147. कुंआखेडी,	10
18	18. हिनई	श्री एम. एल. यात्रव	उपर्यंत्री सम्प्राट अशोक सागर विदिशा।	9426550103	162. सन, 161. भद्रबाडागांव, 163. खरी, 164. हिनई, 165. भैरोखेडी, 166. पालकी, 167. पालकी, 168. मूड़रा मुहाना, 169. मूड़रा मुहाना, 170. मुहाना ठर्।	10
19	19. ठर्	श्री एल. पी. द्विवेदी	सहा. कृषि यंत्री (हलयंत्र) कार्या। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विदिशा।	9424681045	171. निर्टि, 172. भद्रोरा, 173. देहरी, 174. तिलक, 175. पीपरहूठ, 176. अवेला, 117. रमगढ़, 178. ठर्, 179. ठर्, 180. ठर्।	10
20	20. डाबर	श्री अब्दुल रशीद अंसरी	उप परियोजना संचालक आत्मा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विदिशा।	9165123200	188. पड़गयत, 189. खाईखेडा, 190. डाबर, 191. धारखेडी, 7 192. कराखेडी, 193. मदनखेडी, 194. रुसल्ला।	7
21	21. सौंठिया	श्री एस. मेहता	एस.टी.ओ., पी.एच.इ. विविशा	9479813792	203. गुरारिया हवेली, 206. गेहूँखेडी, 204. सौंठिया, 205. सौंठिया, 200. मुआखेडी, 199. रंगई 198. करैयाहवेली।	7
22	22. हांसुआ	श्री विवेक पाण्डेय	जिला संचयनक आदिम जाति कल्याण विभाग, विदिशा।	9303272071	207. पठारी हवेली, 208. धनोरा हवेली, 209. बेरखेडी जेतू, 215. देवराजपुर, 210. हांसुआ, 211. हांसुआ, 212. कछवा, 213. परसोरा हवेली, 214. धौरिया, 201. चिडोरिया, 202. चिडोरिया।	11
23	23. जैतपुर	श्री एस. एन. मनोरे	जिला ग्रामेश्वरा अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा।	9424426555	183. बराखेडा कछवा, 184. बराखेडा कछवा, 185. मूगांद, 181. जैतपुर, 182. गाजीखेडी, 217. गोवरहेला, 216. खरबई, 218. रमण्य, 219. भाटनी, 220-221. आदमपुर।	11
24	24. अहमदपुर करवा	श्री बी. एल. बिलैया	उपसंचालक कृषि विभाग, विदिशा	9424386019	186. मूड़रा परसूखेडी, 187. परसूखेडी, 222. अहमदपुर करवा, 223. अहमदपुर करवा, 224. अहमदपुर करवा, 225. अहमदपुर करवा, 226. बेरखेडी अहमदपुर, 227. सांगई, 228. डंगरवाडा, 229. डंगरवाडा।	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25 25. सौंथर	श्री के. के. वर्मा	महाप्रबंधक म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ई-1, विदिशा.	9893055329	230. सौंथर, 231. अंडिया, 232. बाटखेड़ी, 223. झिरतियां, 234. करगिरिया अह., 235. सतपाड़ा, 236. कांकरखेड़ी, 237. बरखेड़ा, 238. करेया.	9	
26 26. रिजर्व-1	श्री कैलाश कुमार कुम्हारे सहायक प्राध्यापक, शा. काचा महावीर, विदिशा.	9425149712				
27 27. रिजर्व-2	प्रो. उमेश कुमार बोथा सहा. प्राध्यापक एस.ए.टी.आई.	9425640876				
28 28. रिजर्व-3	श्री अरुण भट्टनागर	सह. परियोजना अधिकारी जिला पंचायत विदिशा.	9425463050			
29 29. रिजर्व-4	श्री नीरज चतुर्वेदी सहा. परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा.	9425463366				
1 1. उहर	श्री गौरव सिंधई अनु. अधि. पी.एच.ई. उप संभाग, बासौदा.	9669035465	1. उहर, 02. उहर, 03. मेहमूदा, 04. मेहमूदा, 05. अमोदा, 06. बर्मी, 09. आटस, 10. मलकपुर.	8		
2 2. हरणनाथेड़ी	श्री एस. के. कुम्हार उप यंत्री पी.एच.ई. उप संभाग बासौदा.	9425640704	07. करेयाजागीर, 08. पबईकुरवाई, 11. उकायला, 12. बाकागढ़, 13. हरणनाथेड़ी, 14. हरणनाथेड़ी, 15. पठरिया, 16. पठरिया, 17. शिवरामपुर.	9		
3 3. रोजर	श्री राजकिशोर तिवारी उपयंत्री नगरपालिका, बासौदा	8871716906	18. बीलाडाना, 19. बीलाडाना, 20. बीलाडाना, 21. रोजर 22. रोजर, 33. मुर्टा, 34. वनबासा, 35. किरवाया, 36. किरवाया, 38. गुहणी.	10		
4 4. मसूदपुर	श्री बी. के. रैदास अनु. अधि. कृषि, बासौदा.	8120933129	23. विलवाया, 24. मसूदपुर, 25. मसूदपुर, 26. मजरा पिपरिया, 27. अमनोट, 28. अमनोट, 29. पिपरियाजाजैन,	10		
5 5. अमजानगर	श्री एल. एस. यादव अनु. अधि. पी. डल्ल्यू. डी. उपसंभाग, बासौदा.	9425483452	37. आगामोद, 39. खाथरी, 40. बिहारीपुर, 41. अम्बानगर, 42. अम्बानगर, 43. जरेद, 44. सकरोली, 47. निबोदिया, 48. बेरखेड़ी.	9		
6 6. गंज	श्री राजेश सिंधई उपयंत्री, पी. डल्ल्यू. डी. उपसंभाग, बासौदा.	9907386680	45. मांगरेद, 46. नन्दपुर, 49. गंज, 50. रोजेदा, 51. रोजेदा, 52. नसीदपुर, 53. मठियामेनिया.	7		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	7. पचमा	श्री चौ. आर. शर्मा	उपर्यंत्री, पी. डब्ल्यू. डी. उपर्यंत्रीभाग, बासौदा.	9752335129	138. बनवाजारी, 139. कानीखेड़ी, 140. पचमा, 141. पचमा, 142. चौराबा, 143. सेमरी, 144. भसुडा, 145. गमाखर, 147. गमाखर.	10
8	8. नौशहर्द	श्री आर. पी. गवत	उपर्यंत्री पी. डब्ल्यू. डी. उपर्यंत्रीभाग, बासौदा.	9893900801	148. कूलहा, 149. सलोइ, 150. ललोइ, 151. नोशहर्द, 152. नोशहर्द, 153. पीपरहूटा, 154. मढियासेमरा, 155. मढियासेमरा, 156. परसोराजगारी, 157. सनाकल.	10
9.	स्वरूपनगर	श्री प्रदीप जाधव	सचिव, कृषि उपज मण्डी, बासौदा.	9329301622	121. स्वरूपनगर, 122. स्वरूपनगर, 123. स्वरूपनगर, 124. स्वरूपनगर, 136. महागाँर, 137. महागाँर.	6
10	10. बेहलोट	श्री एस. भद्रिया	अनुबिधानीय अधिकारी, बन बासौदा.	9424790971	126. बेहलोट, 127. बेहलोट, 128. बेहलोट, 129. बेहलोट, 130. बेहलोट, 131. बेहलोट, 132. कालीपठार, 133. कालीपठार.	8
11	11. पवई	श्री चौ. कविश्वर	परियोजना अधि. , आई. सी. डी. एस. बासौदा.	942515004	158. पवई, 159. पवई, 160. फरीदपुर, 161. फरीदपुर, 162. मढियादाखली, 164. हिरनांदा, 165. देरखी, 166. देरखी.	8
12	12. आटासेमर	श्री उत्तयकांत शर्मा	उपर्यंत्री, जनपद शिक्षा केन्द्र बासौदा.	9425149880	163. सोंठिया, 171. तत्नखेड़ी, 172. करोंदाकला, 173. कालापाठा, 174. आटासेमर, 175. आटासेमर, 176. नानूखेड़ी.	7
13	13. मूढ़रा	श्री रिधि शर्मा	उपर्यंत्री, जनपद शिक्षा केन्द्र बासौदा.	9179666095	113. मूढ़रा, 115. सेमरा, 116. बालपार्हुद, 117. स्वरूपनगर, 118. स्वरूपनगर, 119. स्वरूपनगर, 120. स्वरूपनगर, 167. बसरिया, 168. बसरिया, 169. बरखेडा, 170. डफरयाई.	11
14	14. ककरावदा	डा. जनेन्द्र तिवारी	सह. प्राध्या. कृषि महाविद्यालय बासौदा.	9479566954	99. कांचोरी,, 107. नेगपापियां, 108. नेगपापियां, 109. स्थारी, 110. डाबर, 111. ककरावदा, 112. ककरावदा, 114. मेवली, 125. हरदूखेड़ी.	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. 15. मोरोदा	श्री जीनेशकुमार ठाकुर	अनु. अधि., संजय सागर परियोजना, 9826901097 बासौदा.		177. मासेम, 178. देलाखेडी, 179. गुलावरी, 190. मोरोदा, 6 191. बांकची, 192. सनाईरामपुर.		
16. 16. डिडोली	श्री के. बी. किरार	उपर्यंत्री, संजय सागर परियोजना, बासौदा.	9827012403	98. तवक्कलपुर, 100. डिडोली, 101. बेहटा, 105. आकाँड़ोदा, 106. छीपनी, 134. अजीजपुर.		6
17. 17. कंजना	श्री एस. के. शर्मा	उपर्यंत्री, संजय सागर परियोजना, बासौदा.	9425426053	54. हतोडा, 55. हतोडा, 56. हतोडा, 57. कंजना, 58. बिस्कावली, 135. स्थावदा.		6
18. 18. बेरठ	श्री पी. के. गुप्ता	उपर्यंत्री, संजय सागर परियोजना, बासौदा.	9993204030	59. बेरठ, 60. बेरठ, 61. बेरठ, 62. बेरठ, 65. सर्ववाया, 8 66. चुलहेटा, 67. ठरका, 68. टीकोने.		8
19. 19. भाटनी	डॉ. दीपक गुजराल	सहा. प्राध्या., कृषि महाविद्यालय बासौदा.	9411423769	63. पुरवार्ह, 64. पुरवार्ह, 94. भाटनी, 96. भाटनी, 7 97. फतहपुर, 102. सुनरी.		7
20. 20-उदयपुर	श्री जी. एस. नामदेव	उपर्यंत्री, संजय सागर परियोजना, बासौदा.	9685760565	82-उदयपुर, 83-उदयपुर, 84-उदयपुर, 85-उदयपुर 86-उदयपुर, 87-उदयपुर, 88-उदयपुर, 89-उदयपुर, 103-मुरादपुर,		10
21. 21. औरंगपुर	श्री एम. एल. कोरी	उपर्यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बासौदा.	9827504453	213-बावली, 214-बावली, 217-ओरंगपुर, 219-सताखेडी जाजौन, 220-सूजाबासौदा, 221-दाउदबासौदा, 222-दाउदबासौदा.		7
22. 22-लहदरा	श्री जे. एम. सोनी	उपर्यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बासौदा.	9584221061	74-समदपुर, 79-झिलीपुर, 80-झिलीपुर, 81-खड़ाखेडी 90-साहवा, 91-साहवा, 92-साहवा, 93-पिपरियाजाफरबाद, 215-लहदरा, 216-लमन्या, 218-डिमरोली.		11
23. 23-कुलहार	श्री आर. के. एस.	रेजा, वन विभाग, बासौदा चौथरी.	9424790972	69-कुलहार, 70-कुलहार, 71-कुलहार, 72-कुलहार, 73-काजीकिरोदा, 75-बड़वासा, 76-किशनोदा, 77-भुआरा, 78-नरोदा.		9
24. 24-भिलांय	श्री एस. इन. त्रिपाठी	उपर्यंत्री, जनपद पंचायत, बासौदा	9425474600	203-भिलांय, 204-भिलांय, 205-मूडी, 206-पथर, 207-दैलवाड़ा, 208-दैलवाड़ा, 209-आबुपकुचोली, 210-आशुपकुचोली.		8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	25-स्मूलपुर	डॉ. योगेश पटेल	सहा. प्राथा., कृषि महाविद्यालय, बासौदा.	9425086529	239-अमरी, 241-बागरोदा, 242-हामिदपुर, 243-हामिदपुर 244-सूलपुर, 245-सूलपुर, 246-सूलपुर, 247-महोली, 248-मदतयाई, 249-सुभेरदांगी.	10
26.	26-मुराहर	श्री बी. जी. अहिरवार	उप यंत्री, जनपद पंचायत, बासौदा	9425895376	223-मुराहर, 224-मुराहर, 225-उकायला, 226-सुमेकाठी, 227-सैवासा, 228-बंदगावली, 229-मुडना, 240-सुनेटी.	8
27.	27-त्योंदा	श्री आर. के. पटेल	उप यंत्री जनपद पंचायत, बासौदा	9981902776	230-खेरोदा, 231-खेपेटी, 232-जुवाल, 236-खामखेड़ा 237-खामखेड़ा, 238-कजरहौ, 250-त्योंदा, 251-त्योंदा, 252-त्योंदा, 253-त्योंदा.	10
28.	28-मेनबाड़ा	डॉ. विनोदकुमार गर्ग	सहा. प्राथा., कृषि महाविद्यालय, बासौदा.	9407272068	233-मेनबाड़ा, 234-मेनबाड़ा, 235-मटथाई, 272-पिपरियाढैलत, 281-पिपाहा, 282-पिपाहा, 283-पिपराहा, 284-पचपीपरा, 285-हासुआ, 286-सेमरा.	10
29.	29-विषधा	डॉ. जे. पी. लखानी	सहा. प्राथा., कृषि महाविद्यालय, बासौदा.	9981635236	267-खेरोदाबागरोद, 269-लगधा, 270-लगधा, 271-वेदकचौड़ा, 273-नयागांव, 274-मुडना, 275-विषधा, 276-सुमेरकासम, 280-बरोदिया.	9
30.	30-रीछई	श्री सचिन इद्रबाल	अनु. अधि., जल संसाधन, बासौदा.	9826112001	211-करीमपुर, 212-बंजतिया, 254-रीछई, 225. रीछई, 256-बेरखेड़ी, 257-सतपाड़ाकला, 258-पैरवासा, 259-पिपरियाजमांदार, 262-इनायतपुर,	9
31.	31-खटगा	डॉ. संजीव गर्ग	सहा. प्राथा., कृषि महाविद्यालय, बासौदा.	8989686456	193-सिरांटा, 194-सिरांटा, 195-सिरांटा, 196-बागरोद, 197-बागरोद, 198-मुहंसा, 199-दीचोरा, 200-घटेरा, 201-घटेरा, 202-घटेरा.	10
32.	32-सोंसेरा	डॉ. आर. एन. श्रीवास्तव	सहा. प्राथा., कृषि महाविद्यालय, बासौदा.	9425856719	180-सोंसेरा, 181-सोंसेरा, 182-अनवई, 183-अनवई, 184-भिदवासन, 185-भिदवासन, 186-करारी, 187-करारी, 188-करांदाखुर्द, 189-केथरी.	10
33.	33-कस्ता बागरोद	डॉ. प्रवीण मिश्र	सहा. प्राथा., कृषि महाविद्यालय, बासौदा.	9977651512	207-बरमडी, 261-शेखपुर, 263-कस्त्वाबागरोद, 264-कस्त्वाबागरोद, 265-कस्त्वाबागरोद, 266-गोडखेडीमार, 268-गोडखेडीमार, 277-बुढीबागरोद, 278-बुढीबागरोद, 279-विशनपर.	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.	रिजर्व	श्री आशीष श्रीवास्तव	सहा. प्राध्या., कृषि महाविद्यालय, बासौदा.	9993188783		
35.	रिजर्व	श्री आर. एफ. अहिरवार	सहा. प्राध्या., कृषि महाविद्यालय, बासौदा.	9826811552		
36.	रिजर्व	डॉ. एस. के. शर्मा	सहा. प्राध्या., कृषि महाविद्यालय, बासौदा.	9300979361		
37	रिजर्व	डॉ. शिवराम सिंह रघुवंशी.	प्रोफेसर, कृषि महाविद्यालय, बासौदा.	942125571		